

1314030/26-6-13

पत्र संख्या-ज्वार कमि० विं०अनु०शा०-मु०-०३-स०प०/२०११-१२/ टैक्स आडिट /

४५२

/ वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विं०अनु०शा० अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: १२ | जून , 2013

### समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ (विं०अनु०शा० / अपील/ ३० न्या० कार्य/ सबोच्च न्या०कार्य)/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट / विं०अनु०शा०/कार्यपालक/ उच्च न्यायालय कार्य/ सबोच्च न्यायालय कार्य)/ डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर/ वाणिज्य कर अधिकारी ,  
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम की धारा-४४ एवं वाणिज्य नियमावली के नियम ४३ के अन्तर्गत व्यापारियों के टैक्स आडिट करने का प्राविधान किया गया है। टैक्स आडिट किये जाने के संदर्भ में टैक्स आडिट मैनुअल तैयार करते हुये इसकी प्रतियाँ समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को मुख्यालय के पत्र दि० ०९-११-२०१० से वितरित की गयी हैं। टैक्स आडिट मैनुअल विभागीय वेब साइट पर भी उपलब्ध है।

२- टैक्स आडिट व्यवस्था को और प्रभावी बनाये जाने के उद्देश्य से मुख्यालय के पत्र संख्या-ज्वार कमि०- विं०अनु०शा०(मु०)-३/स०प०/ १२-१३/ टैक्स आडिट / १२१३०९५ दिनांक ०५-०३-२०१३ जारी किया गया है जो वेब साइट पर भी उपलब्ध है।

३- टैक्स आडिट मैनुअल के अध्याय -५ प्रस्तर -८ के क्रमांक-४ के अनुसार टैक्स आडिट टीम द्वारा व्यापारी के टैक्स आडिट के निष्पादन के ९० दिन के अवधि के अन्दर टैक्स आडिट रिपोर्ट तैयार करके कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम में टैक्स आडिट की व्यवस्था प्राविधानित किये जाने का मूल उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दखिल किये जा रहे रिटर्न की सत्यता एवं सांगे जा रहे क्लेम की अनुमन्यता की जाँच किया जाना है।

४- मुख्यालय स्तर पर प्राप्त विवरण पत्रों के आधार पर यह पाया गया है कि चयनित किये गये व्यापारियों की संख्या के सापेक्ष निस्तारण की कार्यवाही नगण्य है। आप अवगत हैं कि प्रभावी एवं नियमित रूप से टैक्स आडिट का जाँच कार्य सम्पादित होने पर राजस्व की प्राप्तियाँ तत्काल संभव हो सकेगी। इसके दृष्टिगत टैक्स आडिट में चयनित वादों के निस्तारण हेतु मानक का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस तथ्य के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष २०१३-१४ में माह जुलाई से माह नवम्बर २०१३ तक टैक्स आडिट हेतु चयनित व्यापारियों की संख्या का १६ प्रतिशत प्रतिमाह तथा माह दिसम्बर २०१३ में २० प्रतिशत निस्तारण हेतु मानक निर्धारित किया जाता है।

चयनित किये गये समस्त व्यापारियों की कर निर्धारण पत्रावलियों का टैक्स आडिट माह दिसम्बर २०१३ तक पूर्ण हो जाना चाहिये तथा प्रत्येकदशा में कर निर्धारण अधिकारियों को टैक्स आडिट रिपोर्ट माह जनवरी २०१३ तक मैनुअल के अन्तर्गत परिशिष्ट ६ में निर्धारित प्रारूप में प्रेषित कर दी जाये।

कृपया निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करें / करायें।

मा०

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

### पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन विभाग, ३०प्र०शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- २- अध्यक्ष, वाणिज्य कर, अधिकरण, ३०प्र० लखनऊ।
- ३- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, ३० प्र० लखनऊ।
- ४- संयुक्त निदेशक/प्रशिक्षण वाणिज्य कर अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- ५- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- ६- विं०अनु०शा० अनुभाग को १५ प्रतियाँ अतिरिक्त।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (विं०अनु०शा०)

वाणिज्य कर, मुख्यालय।